

रिमांडर: मौत या गंभीर चोट से बचने के लिए अग्रभाग का काम (फैकेड वर्क) सुरक्षित रूप से करें

पाड़ (स्कैफोल्डिंग) पर किया गया जाने वाला अग्रभाग का काम बेहद खतरनाक हो सकता है और मौत या गंभीर चोट से बचने के लिए हर समय उचित सावधानी अवश्य बरती जानी चाहिए। 2015 से अग्रभाग का काम सुरक्षित रूप से न करने के कारण चार (4) मौतें और चोट लगने की 61 घटनाएँ हुई हैं – इन सभी को पूरी तरह रोका जा सकता था।


अपनी शिफ्ट के बाद अपने परिवार के पास सुरक्षित रूप से लौटना सुनिश्चित करने में मदद के लिए नीचे दिए गए मार्गदर्शन का पालन करें:

अपने उपकरण के बारे में जानें: पाड़ पर कदम रखने से पहले प्रशिक्षण प्राप्त करें।



पाड़ सुरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करने से पहले पाड़ पर या पाड़ से काम न करें। सहारे वाले पाड़ पर काम करने के लिए न्यूनतम चार घंटे के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जबकि लटकने वाले पाड़ पर काम करने के लिए न्यूनतम सोलह घंटे के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। यह प्रशिक्षण हर चार साल में दोबारा ज़रूर किया जाना चाहिए। **कोई कोर्स प्रदाता खोजें।**


कार्यस्थल पर इस स्थिति से बचें: गिरने से सुरक्षा के उपकरण पहनें।



जब आप रेलिंग रहित सहारे वाले पाड़ पर काम कर रहे हों या जब भी आप एक लटकने वाले एडजस्टेबल पाड़ पर काम कर रहे हों तो आपके नियोक्ता के लिए आपको गिरने से सुरक्षा प्रदान करने वाले उपकरण देना आवश्यक है। **हार्नेस पहनना ही पर्याप्त नहीं है!** इसे काम करने के लिए आपका सुरक्षित लाइफ़लाइन से बंधा होना आवश्यक है।

आपके नियोक्ता को आपके द्वारा किए जा रहे कार्य के लिए हार्नेस सहित उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और उसे बांधने की सुविधा प्रदान करना आवश्यक है। यदि आपका नियोक्ता आपको सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान नहीं करता है तो भवन विभाग (Department of Buildings, DOB) को सूचित करने के लिए 311 पर कॉल करें।

ढीला/क्षतिग्रस्त पैरापेट: कोर्पिंग स्टोन (छत की दीवार पर रखे पत्थरों) को निकालते समय अत्यधिक सावधानी बरतें।



जब तक आपके पर्यवेक्षक द्वारा निर्देश न दिया जाए तब तक बिना सहारे की दीवारों के आवरण के लिए उपयोग किए जाने वाले कोर्पिंग स्टोन या किसी भी पत्थर को न निकालें।

काम का सुरक्षित क्रम ज़िंदगियां बचाता है।

पैरापेट की दीवारों को छत की दीवार पर रखे गए पत्थर की ओर से तोड़ा जाना चाहिए। अलग-अलग ईंटों या चिनाई ब्लॉक को न तोड़ें क्योंकि इससे शेष वेथ्स अस्थिर हो सकते हैं। सुनिश्चित करें कि तोड़े जा रहे हिस्से से सटी शेष पैरापेट दीवारें अस्थिर न हों।

किसी भी ढीली (लूज) सामग्री पर नज़र रखें।

यदि आपको ऐसे पैरापेट, कॉर्निस, चिमनी या अन्य ईट के काम दिखते हैं जो ढीले हों या बिल्डिंग से गिरने जैसी अवस्था में प्रतीत होते हों तो अपने पर्यवेक्षक को तुरंत सचेत करें। सुनिश्चित करें कि टाईबैक ठीक से लगे हुए हैं।

तिरपालों को सही तरीके से कसें।

सुनिश्चित करें कि आप पैरापेट दीवार के सहारे मलबे की थैलियों या निर्माण सामग्री जैसी किसी भी चीज को न रखें। तिरपालों और अन्य अस्थायी मौसमी बचाव को कार्य की शिफ्ट के अंत में अवश्य कसकर लगाया जाना चाहिए ताकि वे गलती से अपने स्थान से हट न जाएं या ढीले न हो जाएं।

स्टैंड-ऑफ़ ब्रैकेट खतरनाक होते हैं और इनकी मनाही है।

स्टैंड-ऑफ़ ब्रैकेट युक्त लटकने वाले पाड़ पर काम न करें। स्टैंड-ऑफ़ ब्रैकेट के बारे में अधिक जानकारी के लिए [BB 2019-006](#) को देखें।

